



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1935 (श0)
(सं0 पटना 770) पटना, मंगलवार, 1 अक्टूबर 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

02 अगस्त 2013

सं0 22/नि0सि0(पट0)—03—12/2012/912—श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, (आई0डी0जे0—5519) तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल, नौबतपुर, पटना को पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, करबिगहिया, पटना के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को अतिक्रमित करते हुए उस पर बहुमंजिली अपार्टमेंट निर्माण किये जाने में उनकी सक्रिय अन्तर्लिप्ता के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0—1109 दिनांक 11.10.12 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16 दिनांक 7.1.13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

श्री सिंह, निलंबित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पूर्व श्री सिंह दिनांक 28.2.13 को सेवानिवृत्त हो गये। फलतः श्री सिंह, निलंबित सहायक अभियन्ता को उनके सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 28.2.13 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 28.2.13 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

उक्त आदेश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 770-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>